



## सबके लिए स्वास्थ्य बीमा

वाशिंगटन में हर कोई, आप्रवासन स्थिति की परवाह किए बिना, स्वास्थ्य और दंत बीमा प्राप्त कर सकता है।

### आवेदन करने के चरण

- अपनी जानकारी इकट्ठा करें  
आवेदन के लिए जाँचसूची। आवेदन करने के लिए आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर की आवश्यकता नहीं है।
- सहायता प्राप्त करें  
एक नेविगेटर खोजें या कस्टमर सपोर्ट सेंटर से संपर्क करें: [1-855-923-4633](tel:1-855-923-4633)  
TTY/TDD: [1-855-627-9604](tel:1-855-627-9604)
- एक आवेदन भरें  
आप किसी नेविगेटर के साथ ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Washington Healthplanfinder संघीय और राज्य के कार्यक्रमों, WA Health Path और बचत के लिए आपकी पात्रता की जांच करता है। अपने परिणाम प्राप्त करने के बाद, एक प्लान चुनने और नामांकित होने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।

### बीमा की लागत कितनी है?

बीमा की लागत आय, परिवार के आकार और आप कहाँ रहते हैं, इन सहित कई कारकों पर निर्भर करती है। कुछ लोग उन कार्यक्रमों के लिए पात्र हैं जो मासिक लागत को कम करते हैं। एक नेविगेटर यह समझने में आपकी मदद कर सकता है कि क्या आपके लिए कोई कार्यक्रम उपलब्ध है और आपको हर महीने कितना भुगतान करना होगा। Cascade Care प्लान लगभग हमेशा आपके पैसे के लिए सर्वोत्तम कवरेज प्रदान करते हैं।

## क्या मेरी जानकारी गोपनीय है?

आपकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी जानकारी का उपयोग केवल आपके लिए उपलब्ध बीमा प्लान और बचत खोजने के लिए किया जाता है। संघीय रूप से मान्यता प्राप्त आप्रवासन स्थिति के बिना Washington Healthplanfinder लोगों से जानकारी साझा नहीं करता है।

यदि आप Apple Health (Medicaid) में नामांकन करते हैं, तो आपकी जानकारी Health Care Authority (HCA) द्वारा संभाली जाती है। HCA की गोपनीयता प्रथाओं के बारे में और पढ़ें।

## हाल के अपडेट

हम संघीय परिवर्तनों की निगरानी करते हैं और Washington Healthplanfinder आपके बीमा या बचत को प्रभावित करने वाली किसी भी चीज़ के बारे में आपको सूचित करेगा।

वाशिंगटन में हर कोई Washington Healthplanfinder का उपयोग करके स्वास्थ्य और दंत चिकित्सा बीमा प्राप्त कर सकता है, जिसमें Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) प्राप्तकर्ता और “federally recognized immigration status” (संघीय मान्यता प्राप्त आब्रजन स्थिति) के बिना लोग शामिल हैं।

संघीय परिवर्तनों के कारण, DACA प्राप्तकर्ताओं को अपने आवेदन में यह पूछे जाने पर “No” (नहीं) में उत्तर देना चाहिए कि क्या वे “lawfully present” (कानूनी रूप से मौजूद) हैं।

## प्लान और कार्यक्रम की जानकारी

आपको बीमा प्राप्त करने में मदद करने के लिए कई अलग-अलग प्लान और कार्यक्रम उपलब्ध हैं। उपलब्ध विकल्पों की जानकारी पाने के लिए एक आवेदन शुरू करें।

ऐसी जानकारी वाले लिंक हैं जो शायद आपकी भाषा में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। अपनी भाषा में सहायता के लिए किसी नेविगेटर या ग्राहक सहायता केंद्र से संपर्क करें।

[1-855-923-4633](tel:1-855-923-4633)

TTY/TDD: [1-855-627-9604](tel:1-855-627-9604)

200 से अधिक भाषाओं में सहायता उपलब्ध है।

## Cascade Care

Cascade Care प्लान केवल Washington Healthplanfinder के माध्यम से उपलब्ध हैं। ये प्लान पात्र लोगों के लिए अधिक किफायती हैं।

- [Cascade Care](#)
- [Cascade Care Savings](#)

## टैक्स क्रेडिट

टैक्स क्रेडिट उस राशि को कम करते हैं जिसका भुगतान आप हर महीने अपने स्वास्थ्य प्लान के लिए करते हैं। इनका भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है और इन्हें आपके स्वास्थ्य प्लान के प्रीमियम पर लागू किया जाता है। टैक्स क्रेडिट केवल Washington Healthplanfinder के माध्यम से पात्र लोगों के लिए उपलब्ध हैं।

- [टैक्स क्रेडिट](#)

## Apple Health

Apple Health गर्भवती लोगों, बच्चों और वयस्कों के लिए नियमित डॉक्टर के पास जाने और आपातकालीन कक्ष सेवाओं तक मुफ्त या कम लागत वाली पहुंच प्रदान करता है। Apple Health वाशिंगटन में Medicaid का नाम भी है। ये कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो आपके और आपके परिवार के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, आपके संदर्भ के लिए कुछ नाम अंग्रेज़ी में और आपकी भाषा में दिए गए हैं:

- [Apple Health](#)
- [Apple Health for Kids](#)
- [Apple Health for Pregnant Individuals](#)
- [गर्भावस्था के बाद कवरेज / After-Pregnancy Coverage](#)
- [Apple हेल्थ एक्सपैंशन / Apple Health Expansion](#)

## अन्य कार्यक्रम

ऐसे कई अन्य कार्यक्रम हैं जो आपकी और आपके परिवार की मदद कर सकते हैं, चाहे आपकी स्थिति या परिस्थिति कुछ भी हो।

- [केवल परिवार नियोजन / Family Planning Only](#)
- [चिकित्सा देखभाल सेवाएं / Medical Care Services](#)
- [एलियन आपातकालीन चिकित्सा / Alien Emergency Medical](#)

## संसाधन

- [स्वीकृत दस्तावेजों और उन्हें जमा करने के तरीके के बारे में और जानें।](#)
- [स्वास्थ्य और दंत बीमा के लिए आवेदन करने के चरणों के बारे में और जानें।](#)
- [भाषा सहायता के बारे में अधिक जानें और अनुवादित सामग्री देखें।](#)